

## पाठ - 2 जैसा सवाल वैसा जवाब

### I. कठिन शब्द:-

- |                |            |           |           |             |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. बादशाह      | 2. अकबर    | 3. बीरबल  | 4. मंत्री | 5. बुद्धि   |
| 6. दरबारी      | 7. मुसीबत  | 8. ख्वाजा | 9. विद्या | 10. मूर्ख   |
| 11. हिंदुस्तान | 12. केंद्र | 13. फीते  | 14. भेड़  | 15. संख्या  |
| 16. संसार      | 17. आबादी  | 18. संदेह | 19. गहराई | 20. विश्वास |

### II. विलोम शब्द:-

- |                        |                       |                   |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. बड़ा X छोटा         | 2. चलती X रुकती       | 3. प्रश्न X उत्तर |
| 4. खुशी X गम           | 5. गलत X सही          | 6. पहली X आखरी    |
| 7. सवाल X जवाब         | 8. आगे X पीछे         | 9. मरना X जीना    |
| 10. संतुष्ट X असंतुष्ट | 11. बुद्धिमान X मूर्ख | 12. लंबी X चौड़ी  |

### III. कहानी पढ़कर उत्तर दीजिए:-

बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल बहुत समझदार आदमी था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फसाने के तरिके सोचते थे। ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख समझते थे। एक दिन ख्वाजा सरा ने तीन प्रश्न लिखकर बादशाह अकबर को देकर बीरबल से प्रश्न पूछने को कहा।

प्र1 बीरबल किसे बहुत पसंद करते थे?

उत्तर. बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे।

प्र2. दरबारी किसे मुसीबत में फँसाने की योजना बनाते रहते थे?

उत्तर. दरबारी बीरबल को मुसीबत में फँसाने की योजना बनाते रहते थे।

प्र3. ख्वाजा ने कितने प्रश्न लिखकर बादशाह को दिया?

उत्तर. ख्वाजा ने तीन प्रश्न लिखकर बादशाह को दिया।

IV. समानार्थी शब्द:-

- |                    |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. अभिमान - घमंड   | 2. संसार - दुनिया    | 3. बादशाह - राजा    |
| 4. जवाब - उत्तर    | 5. शक्तिशाली - बलवान | 6. बुद्धिमान - चतुर |
| 7. विश्वास - भरोसा | 8. मूर्ख - अज्ञानी   | 9. कोशिश - प्रयास   |

V. मुहावरों के अर्थ:-

1. छक्के छूटना - बुरी तरह पराजित होना
  2. नाक भोह सिकोड़ना - अप्रसन्नता प्रकट करना
  3. कलाई खुलना - पोल खुलना
-